

آية الكرسي आयतुल कुर्सी

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ
وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِنْدِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا
يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

उच्चारण

अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा, अल-हय्युल-कय्यूम। ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम। लहु मा फिस-समावाति वमा फिल-
अर्ज़। मन ज़ल्लज़ी यश्फ़उ इंदहु इल्ला बि-इज़्निहि। यअलमु मा बैन अयदीहिम वमा खल्फ़हुम, वला युहीतूना बिशयइन मिन
इल्मिहि इल्ला बिमा शा'आ। वसि'आ कुर्सिय्युहुस-समावाति वल-अर्ज़, वला यऊदुहु हिफ़्जुहुमा, व हुवा अल-अलिय्युल-
अज़ीम।

हिंदी अनुवाद

अल्लाह, उनके सिवा कोई पूज्य नहीं, वह सदा जीवित, सब कुछ संभालने वाला है। न उसे ऊंघ आती है, न नींद। आकाश
और धरती में जो कुछ है, सब उसी का है। कौन है जो उसकी अनुमति के बिना उसके पास सिफारिश कर सके? वह जानता है
जो उनके सामने है और जो उनके पीछे है। वे उसके ज्ञान में से कुछ भी नहीं जान सकते, सिवाय इसके जो वह चाहे। उसका
सिंहासन आकाश और धरती को घेरे हुए है, और उनकी रक्षा करना उसके लिए कठिन नहीं। वह सर्वोच्च, महान है।

